



**DISCHARGE SUMMARY**

**MR. SHAIKH MUDASSIR SHAIKH  
SHABBIR**

**AN052834**

Dob / Age : 34 Yr / Male  
Address : Taj Nagar Parpeth Malkapur Buldhana Maharashtra , Buldhana,  
Maharashtra, India, 443101  
Mobile No : 9156773093 Reg. No : IPD.J.25-26-6217  
Patient Category : PRIVATE 23  
Ward Info : Pvt-544 B/Twin Sharing/5f-Ward Iv  
Next Of Kin : Liyakat Khan Salam Khan (Uncle) Ph: 8624979980  
Discharge Type : Regular Discharge  
Discharge Condition : Stable  
Department : Medical Oncology  
Consultants : Dr. Ketan Jayant Modak [Mbbs, Md, Dm]  
Admission Date : 27-06-2025 02:39 PM Discharge Date : 27-06-2025 10:35 PM  
ABHA NO. :



**DIAGNOSIS**

**DIAGNOSIS**

**ICD CODE**

**CLASSIC HODGKIN LYMPHOMA**

**HOSPITAL COURSE**

Patient admitted for chemotherapy, vitals stable.

**Protocol -ABVD # 3B**

1. INJ Adriamycin 42 mg.
2. inj Bleomycin 16 mg.
3. inj vinblastin 10mg.
4. inj DTIC 630 mg.

IV FLUIDS

**TREATMENT ADVICE ON DISCHARGE**

SR.	MEDICINE	DOSAGE INSTRUCTION	DUR. / ROUTE
1.	<b>GRAFEEL 300 MCG</b> <i>FILGRASTIM</i>	1 - Inj, once daily, s/c on 4-07-2025 (maintain in cold chain) for 1 day	
2.	<b>PERINORM 10MG TAB</b> <i>METOCLOPRAMIDE HCL</i> <i>(10MG)</i>	1 Tab Three times a day	7 days ORAL
3.	<b>ACIVIR 400</b> <i>NA</i>	1 Tab - Two times a day, to continue	ORAL
4.	<b>SEPTRAN DS</b> <i>NA</i>	1 tab two times a day ( monday/thursday)	

5.	CREMAFFIN SYRUP MILK OF MAGNESIA+LIQUID PARAFFIN	15 mL, at night, (if loose motion then stop) for 7 days	ORAL
6.	BETADINE 1 % GARGLE (100 ML) POVIDONE IODINE	15ml gargles 4 to 6 times per day	ORAL
7.	FACE MASK FOR CONSTANT USE NA		

#### DISCHARGE ADVICE

Review on 11/7/2025 with CBC, S. Creatinine, SGOT, SGPT reports.

Dr. Chetna Khobe  
NATIONAL CANCER INSTITUTE, NAGPUR  
CG00771AYURVED

Dr. KETAN JAYANT MODAK  
MBBS, MD, DM  
Consultant - Hematologist & BMT Physician

मुझे/हमें घर पर ली जाने वाली दवाओं की खुराक, तारीख, समय और अन्य आवश्यक निर्देशों के बारे में बताया गया है। अगले परामर्श के लिए तारीख और समय की सूचना दे दी गई है। मुझे/हमें मूल डिस्चार्ज सारांश प्राप्त हो गया है। आपात्कालीन स्थिति में, मुझे/हमें सूचित किया गया है कि कहां और किससे संपर्क करना है।

हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_ मरीज/रिश्तेदार का नाम : \_\_\_\_\_

I / We have understood the instructions about medication and care after the discharge and the next review date.

I / We have received the Discharge Summary.

I / We have been informed about the emergency contact details

Patient's / Attendant's signature : \_\_\_\_\_ Patient's / Attendant's name : \_\_\_\_\_

In Case of any emergency contact or report to casualty of NCI Jamtha





Non FDG avid splenic hilar lymphnodes noted, largest measures sub cm sized [previously, 1.4 x 1 cm (SUVmax 4)].

No obvious FDG avid lesion noted in the liver.

No obvious FDG avid significant locoregional nodes.

Bilateral kidneys show normal tracer extraction and excretion.

#### **MUSCULOSKELETAL SYSTEM:**

No significant FDG avid lytic sclerotic bone or marrow lesion noted in the visualized axial and appendicular skeletal system.

#### **BRAIN:**

No obvious FDG avid lesion noted involving the visualized brain parenchyma. (*PET-CT is less sensitive for brain lesions and in cases with high likelihood of brain lesions, an MRI correlation is recommended*).

#### **IMPRESSION:**

As compared to previous PET-CT scan done April 2025, the present scan reveals:

- Complete metabolic regression of multiple supra and infradiaphragmatic lymphnodes as described - Lymphoproliferative disease.
- Complete metabolic regression of multiple hypodense lesion involving the spleen .
- Liver and marrow appears uninvolved.
- No obvious new lesion noted.

**Overall scan findings suggest complete metabolic treatment response. (Deauville's score 3).**



**Dr. Chaitali Bongulwar**  
MD (Nuclear Medicine)  
Reg. No. 2010/07/2440  
Consultant - Nuclear Medicine

NATIONAL CANCER INSTITUTE, NAGPUR.

**Dr. Chaitali Bongulwar**  
Consultant  
Department of Nuclear Medicine

Scan the QR code to download your e-report



Patient Name: MR. SHAIKH MUDASSIR SHAIKH SHABBIR / AN052834  
Age / Gender: 34 Yr/M  
Address: TAJ NAGAR PARPETH MALKAPUR BULDHANA MAHARASHTRA , Wadaji,  
Buldhana, MAHARASHTRA, India, 443101  
Req. Doctor: Dr. KETAN JAYANT MODAK  
Regn. Number: OPD.J.25-26-81546



Request Date : 12-06-2025 08:25 AM

Reporting Date : 12-06-2025 06:19 PM  
Report Status : Finalized

### **<sup>18</sup>F-FDG PET CT SCAN**

**TECHNIQUE:** Helical CT study of the whole body was performed from head to mid thigh level on multi-slice CT scanner with axial, sagittal and coronal reconstruction. 6.72 mCi of <sup>18</sup>F-Fluorodeoxyglucose (FDG) was injected IV in euglycemic status. One hour later whole body PET/CT imaging (Head to mid thigh) was performed on a GE Discovery PET multi-slice CT scanner Standardised Uptake value (SUV) calculated for body weight and expressed as 162 g/ml.

**CLINICAL SUMMARY:** Case of Hodgkin lymphoma. Post #2 ABVD (LD; 30-05-2025). Present PET-CT scan for disease status evaluation and treatment response. Previous PET-CT scan done April 2025, is available for comparison.

### **FINDINGS:**

#### **HEAD AND NECK:**

Non FDG avid multiple bilateral cervical II-V and bilateral supraclavicular lymphnodes noted, measuring 1.8 x 1.9 cm [previously, 3.2 x 2.7 cm (SUVmax 9.52)].

No obvious FDG avid lesion noted involving the region of head and neck.

#### **CHEST:**

Low grade to non FDG avid highest mediastinal upper and lower paratracheal, prevascular, precarinal, subcarinal and left hilar lymphnodes noted, largest measures 3.3 x 2.7 cm ( SUVmax 2.75), [previously, 6.6 x 5.5 cm ( SUVmax 8.66)].

Low grade to non FDG avid bilateral axillary, retropectoral, bilateral internal mammary, paracardiac and bilateral epiphrenic lymphnodes noted, largest measures cm sized ( SUVmax 1.94), [previously, 4.4 x 2 cm (SUVmax 8.94)].

No suspicious nodules noted in bilateral lung fields.

#### **ABDOMEN AND PELVIS:**

Non FDG avid few hypodense lesion noted involving the spleen, largest measures cm sized [previously, 2.6 x 1.8 cm (SUVmax 4.81)].